


स्वास्थ्य

एंटी कैंसर थेरेपी में देरी ठीक नहीं

• डा. सुमन एस कारंथ



कोविड-19 के चलते कैंसर के इलाज में देरी से कैंसर मरीजों पर होते दुष्प्रभाव और भविष्य में कैसे उन के हितों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, आइए जानें.

कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण के डर से अस्पतालों में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की संख्या काफी गिर गई थी. मरीजों के सीधे संपर्क में आने के बजाय दुनियाभर में डाक्टरों ने टैलीफोन या वीडियो कंसल्टेशन को प्राथमिकता दी और खासतौर से फॉलोअप के मामलों में तो इसी विकल्प को ज्यादा अपनाया गया. बेशक, कुछ उपचारों के मामले में मामूली देरी चलती है लेकिन केवल कुछ समय के लिए ही ऐसा करना उचित है. कैंसर जैसे रोगों के मामलों में तत्काल उपचार की जरूरत होती है. लेकिन देखने में आया कि टैलीमेंडिसिन की सुविधा के बावजूद आबादी के एक बड़े हिस्से ने इस विकल्प को ठीक से नहीं अपनाया. मरीजों ने अपनेआप ही डाक्टर से परामर्श लेना बंद कर दिया.

यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मैडिकल ऑन्कोलॉजी की एक अग्रणी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि मरीजों को अपनी एंटी कैंसर थेरेपी में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए. इस में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैंसरग्रस्त रोगियों के कोविड-19 संक्रमण का शिकार होने की आशंका भी काफी अधिक रहती है. इस को वजह से मरीज के इलाज पर बुरा असर पड़ता है और वह अपने इलाज में देरी कर सकता है जोकि सही नहीं है.

मरीजों के उपचार के मामले में कुछ उपायों का पालन किया जा सकता है ताकि संक्रमण के जोखिम और इलाज में देरी से बचा जा सके. ऑन्कोलॉजिस्टों के लिए भी यह जरूरी है कि वे मरीजों को अधिक जोखिमग्रस्त, मध्यम दर्जे के जोखिम या कम प्राथमिकता जैसे समूहों में बाँटें जिस

अद्वि

से अधिक गंभीर रोगियों को एंटी कैंसर थेरेपी शुरू की जा सके. जब भी लोकल ट्रीटमेंट के तौर पर सर्जरी या रेडिएशन की आवश्यकता हो, उपचार स्थगित करने के बजाय जोखिम अनुपात पर विचार करना चाहिए ताकि मरीज के जीवन पर इस के प्रभाव का आकलन हो सके.

इसी तरह हाई रिस्क मरीजों के मामले में सहायक थेरेपी दी जा सकती है ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके. यदि ओरल कीमोथेरेपी का विकल्प हो तो



कैंसरग्रस्त रोगियों के कोविड-19 संक्रमण का शिकार होने की आशंका काफी अधिक रहती है.

अस्थायी तौर पर ही सही इसे अपनाया चाहिए जोकि जोखिम के आकलन के बाद हो सकता है. पैलिएटिव कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाले मरीजों को कीमोथेरेपी के बीच के अंतराल में अतिरिक्त ड्रग फॉलोअप गैप्स टिए जा सकते हैं. इसी तरह कम अवधि के कीमोथेरेपी या रेडिएशन शेड्यूल भी चुने जा सकते हैं जोकि इस पर निर्भर होगा कि मरीज की बीमारी किस चरण में है.

मरीजों को भी संक्रमण का खतरा कम करने के लिए कुछ उपायों का पालन करना चाहिए. डाक्टरों से रूटीन कंसल्टेशन और चैकअप के लिए

जितना संभव हो, टैलीमेंडिसिन सुविधा का लाभ उठाएँ. अस्पताल उसी स्थिति में जाएँ जबकि शारीरिक जांच आवश्यक हो. यदि अस्पताल जाना जरूरी हो तो अपने डाक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट लें ताकि ओपीडी में इंतजार से बचा जा सके. बुखार से पीड़ित मरीजों को मेन ओपीडी एरिया में आने से बचना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा न हो. अतिरिक्त लक्षणों, जैसे सांस फूलना, कमजोरी आदि की भी उन की जांच की जानी चाहिए ताकि कीमोथेरेपी को वजह से पैदा होने वाले फिब्रिल न्यू ट्रोपिनिया और कोविड संक्रमण के बीच फर्क किया जा सके.

अब कोविड वैक्सिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अमेरिका सरीखे कई देशों ने हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को बाद कैंसर मरीजों को प्राथमिकता सूची में रखा है. वैक्सिनेशन की प्रक्रिया सुरक्षित है और यह मरीजों को कैंसर उपचार के क्रॉनिक चरण में सुरक्षा प्रदान करती है. अलवत्ता, ऐक्टिव एंटी कैंसर थेरेपी ले रहे मरीजों पर वैक्सिनेशन के प्रभावों का आकलन अभी किया जाना बाकी है ताकि यह पता चल सके कि इस के विपरीत असर होते हैं या यह कम प्रभावी है.

कुल मिला कर, यह स्पष्ट है कि कैंसर एक प्रकार का विषम रोग है और आप के ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ सलाहमशवरा के आधार पर ही कोई फैसला इलाज के बारे में लेना चाहिए ताकि कोविड महामारी के दौर में सुरक्षित और कारगर एंटी कैंसर उपचार सुनिश्चित किया जा सके. ●

(लेखक फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट, मुद्रागम के डिपार्टमेंट ऑफ मैडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी में कंसल्टेंट पर पर सेवारत हैं.)